

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश के मन्दासौर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-मन्दासौर

स. क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)	कार्यालय/विभाग का नाम (4)
1	श्री शिरीष वाडीकर	सहायक संचालक	औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दासौर
2	श्री व्ही. के. माहेश्वरी	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, मन्दासौर
3	श्री टी. ए. खां	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग, मन्दासौर
4	श्री आई. एस. सौलंकी	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ
5	श्री टी. आर. वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	लोक नि. वि. वि. (विद्युत् यांत्रिकी), मन्दासौर
6	श्री पी. के. शिल्पी	उप संचालक	खनिज शाखा, मन्दासौर
7	श्री पी. के. गोधा	कार्यपालन यंत्री	चम्बल कालोनी, मन्दासौर
8	श्री आर. के. निगम	सहायक यंत्री	चम्बल कालोनी, मन्दासौर
9	श्री महेन्द्र कुमार चौरे	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन संभाग, मन्दासौर
10	श्री सुरेन्द्र सिंह गहवार	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग, मन्दासौर

(1)	(2)	(3)	(4)
11	श्री राजेश पटवा	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग, मंदसौर
12	श्री नवीन कुमार गौड़	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग, मंदसौर
13	श्री सुनिल कुमार सिंह	उप आयुक्त	सहकारिता, जिला मंदसौर
14	श्री गिरीश निम्बार्क	अंकेक्षण अधिकारी	सहकारिता जिला, मंदसौर
15	श्री रमेश कुम्भारे	जिला पंजीयक	(कलेक्टोरेट परिसर) मंदसौर
16	श्री बी. आर. गोयल	जिला आपूर्ति अधिकारी	खाद्य, आपूर्ति विभाग, मंदसौर
17	श्री आर. जी. सूर्यवंशी	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंदसौर
18	श्री जे. एस. उद्दे	सहायक श्रमायुक्त	कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर
19	श्रीमती रेलम बघेल	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी.	जिला महिला एवं बाल विकास, मंदसौर
20	श्री के. एस. राजपूत	प्रबंधक	कम्बल केन्द्र, मंदसौर
21	श्री डी. एस. कोश	वन मण्डल अधिकारी	वन मण्डल, सामाय, मंदसौर
22	श्री टी. सी. वेश्य	सहायक, आयुक्त	कार्यालय, सहायक आयुक्त, मंदसौर
23	श्री महेन्द्र भार्गव	उप संचालक	सामाजिक न्याय, मंदसौर
24	श्री डी. के. व्यास	उप संचालक	पशु चिकित्सालय, मंदसौर
25	श्री एस. जी. बर्वे	सहायक यंत्री	लोक स्वा. यां. मेकेनिकल, मंदसौर
26	श्री आर. बी. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री, ग्राम.यां. सेवा, मंदसौर
27	श्री एस. के. जैन	जिला प्रबंधक	एम.पी. एग्रो इण्ड. मंदसौर
28	श्री अशोक कुमार जोशी	सहायक यंत्री	एम.पी. हाऊसिंग बोर्ड उपखण्ड, मंदसौर
29	श्री मनोज निगम	परियोजना अधिकारी (संविदा)	जिला पंचायत, मंदसौर
30	श्री मनोज मकवाना	परियोजना अधिकारी, (संविदा)	जिला पंचायत, मंदसौर
31	श्री राजेश पाटीदार	सहायक संचालक, (संविदा)	जिला पंचायत, मंदसौर
32	श्री प्रकाश गिरासे	जिला सत्र TSC संविदा	जिला पंचायत, मंदसौर
33	श्री राकेश जाटव	परियोजना अधिकारी (संविदा)	जिला पंचायत, मंदसौर
34	श्री सुनिल कुमार व्यास	WDT उपयंत्री	जिला पंचायत, मंदसौर
35	श्री राजेश दुवे	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत, मंदसौर
36	श्री के. पी. कोरी	प्रबंधक ग्रामोद्योग	जिला पंचायत, मंदसौर
37	श्री अनिल कुमार तिवारी	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत, मंदसौर
38	श्री आर. के. जैन	महाप्रबंधक	म. प्र. गा. सड़क, मंदसौर
39	डॉ. श्रीमती सुलोचना शर्मा	प्राचार्य	डाईट मंदसौर
40	श्री के. एल. व्यास	प्रभारी सहायक संचालक	सहायक संचालक, उद्यान, मंदसौर
41	श्रीमती उमा वर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी ए.बा.वि.परि. ग्रामीण, मंदसौर
42	श्री एस. सी. जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर, मंदसौर
43	श्री एम. एल. सौलंकी	सहायक संचालक	जिला सहा. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, मंदसौर
44	श्री अशोक शर्मा	कार्यपालन अधिकारी	जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मंदसौर
45	श्री अम्बरीष अधिकारी	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंदसौर
46	श्री एल. एस. नरवरिया	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि, मंदसौर
47	श्री रामबाबू सोनी	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि, गरोठ
48	श्री जितेन्द्रसिंह	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मंदसौर
49	श्री जी. एस. मोहनिया	उप संचालक	किसान कल्याण तथा कृषि, मंदसौर
50	श्रीमति अनिता धाकड़	सहायक संचालक, कृषि, मंदसौर	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि मंदसौर
51	श्री ए. के. हरसौला	CEO	जिला सहकारी बैंक, मंदसौर
52	श्री अजय शुक्ला	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी	म. प्र. ऊर्जा विकास निगम, मंदसौर
53	श्री टी. एस. भूरिया	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा, मंदसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
54	श्री एन. के. मेहरोत्रा	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर
55	श्री आर. के. सिंह	क्षेत्र संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर
56	श्री डी. के. कुररिया	कार्यपालन	म. प्र. मत्स्य महासंघ, गांधीसागर
57	श्री पी. सी. चौहान	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, सीतामऊ
58	श्री बी. के. त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक	वन मण्डल सामान्य, मंदसौर
59	श्री ए. के. जैन	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
60	श्री ए. के. गुप्ता	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
61	श्री डी. सी. बडिया	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
62	श्री जी. एस. मण्डलोई	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
63	श्री मनोहरसिंह चुण्डावत	सहायक प्रबंधक	म. प्र. सड़क प्राधिकरण इकाई तीन, मंदसौर
64	श्री विनय कुमारसिंह कुशवाह	सहायक प्रबंधक	म. प्र. सड़क प्राधिकरण इकाई तीन, मंदसौर
65	श्री वी. एल. कुमावत	सहायक संचालक	शिक्षा विभाग, मंदसौर
66	श्री यशपाल जोशी	महाप्रबंधक	म. प्र. ग्रामीण सड़क, मंदसौर
67	श्री एम. के. बजाज	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास अधिकरण, मंदसौर
68	श्री व्ही. पी. मानन	महाप्रबंधक	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, मंदसौर
69	श्री एम. आर. जाटव	सहायक संचालक	कृषि, मंदसौर
70	श्री जी. डी. कतरोलिया	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्य कर, मंदसौर
71	श्री एम. डी. धार्वे	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्य कर, मंदसौर
72	डॉ. बी. एस. बघेल	अधिष्ठाता	उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर
73	डॉ. बी. एस. गुप्ता	जिला समन्वयक	कृषि विज्ञान केन्द्र, मंदसौर
74	श्री एस. सी. मंगल	जिला विपणन अधिकारी	जिला विपणन संघ, मंदसौर
75	श्री ए. के. अग्निहोत्री	सहा. वाणिज्यिक अधिकारी	वाणिज्यिक कर वृत्त-2, मंदसौर
76	श्री ओ. पी. निम्बे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, शामगढ़
77	श्री बी. के. चौरसिया	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर